



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2236]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 2016/भाद्र 23, 1938

No. 2236]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 14, 2016/BHADRA 23, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2016

का.आ. 2936(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3408 (अ), तारीख 15 दिसम्बर, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के भावनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ई के 7.000 कि.मी. से 34.100 कि.मी. (भावनगर सेक्शन का हिस्सा) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 24 दिसम्बर, 2015 को “संदेश” और “इंडियन एक्सप्रेस” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची									
गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ई के 007.000 कि.मी. से 34.100 कि.मी. तक (भावनगर सेक्शन का भाग) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।									
क. सं.	जिला का नाम	तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वे सं.		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम
				3 क में प्रकाशन के अनुसार	जे एम एस के अनुसार				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	भावनगर	(1) द्योद्या	(1) उखरला	227 P1 & 227 P2	227 P1	निजी	खेती	0.0123	महेन्द्रसिंह देवसिंह चौहाण, भगिरथसिंह लखधिरसिंह गोहिल, पोपट करशन, तुलसी करशन, भुराभाई बावचंदभाई, भगतभाई बावचंदभाई, शिवाभाई बावचंदभाई, वशरामभाई बावचंदभाई, अंजूबेन बावचंदभाई, धरमशीभाई वेलाभाई, वल्लभभाई वेलाभाई, सुखाभाई वेलाभाई, नानुभाई वेलाभाई, गोमुबेन वेलाभाई, रंभाबेन वेलाभाई, चकुबेन वेलाभाई, रामुबेन प्रागजीभाई, अरविंदभाई प्रागजीभाई, जीभाई प्रागजीभाई, हितेशभाई प्रागजीभाई, गीताबेन प्रागजीभाई, हंसाबेन प्रागजीभाई
				225	225	सरकारी	बिनखेती	3.0860	श्री सरकार
				Road paiki	Road paiki	सरकारी	बिनखेती	0.1401	श्री सरकार
				229,230,P1 Plot No.1	229,230,P1 Plot No.1	निजी	बिनखेती	0.4516	द्याशीराम गोकुलचंद इंडस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
कुल योग						3.6900			

[फा. सं. भाराराप्रा/11011/गुजरात/राजकोट/भु अ]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2016

S.O. 2936(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number **S.O. 3408 (E)**, dated the **15th December 2015**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under Sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.8E on the stretch of land from km 007.000 to km 034.100 (Part of Bhavnagar Section) in the District Bhavnagar, in the State of Gujarat.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Sandesh” and “Indian Express” both dated **24.12.2015** under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person, by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE									
Brief description of the land to be aquired with or without structure falling within the stretch of land from km. 007.000 to km. 34.100 (Part of Bhavnagar Section) of Natonal Highway No.8E in the state of Gujarat									
Sl. No.	Name of the district	Name of the taluka	Name of the Village	Survey Number		Type of land	Nature of land	Area (in Hectares.)	Name of the land owner / Interested person
				As notified in 3A	As per JMS				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	8	(9)
1	Bhavnagar	(1) Ghogha	(1) Ukharla	227 P1 & 227 P2	227 P1	Private	Agriculture	0.0123	Mahendrasinh Devisinh Chauhan, Bhagirathsinh Lakhdhirsinh Gohil, Popat Karshan, Tulsi Karshan, Bhurabhai Bavchandbhai, Bhagatbhai Bavchandbhai, Shivabhai Bavchandbhai, Vasharambhai Bavchandbhai, Anjuben Bavchandbhai, Dharmashibhai Velabhai, Vallabhabhai Velabhai, Sukhabhai Velabhai, Nanubhai Velabhai, Gomuben Velabhai, Rambhaben Velabhai, Chakuben Velabhai, Ramuben Pragjibhai, Aravindbhai Pragajibhai, Manjibhai Praagjibhai, Hiteshbhai Pragjibhai, Gitaben Pragjibhai, Hansaben Pragjibhai
				225	225	Government	Non-Agriculture	3.0860	Government
				Road paiki	Road paiki	Government	Non-Agriculture	0.1401	Government
				229,230,P1 Plot No.1	229,230, P1 Plot No.1	Private	Non-Agriculture	0.4516	Ghashiram Gokulchand Industries Private Limited
Total							3.6900		

[F. No. NHAI/11011/Gujarat/Rajkot/LA]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.